

Awadhi Easy-to-Read Version

Language: अवधी (Awadhi)

Provided by: Bible League International.

Copyright and Permission to Copy

Taken from the Awadhi Easy-to-Read Version © 2005 by Bible League International.

PDF generated on 2017-08-25 from source files dated 2017-08-25.

a1ae5774-2ca2-500b-8aeb-2c74229c4519

ISBN: 978-1-5313-1308-1

हाग्गै

मंदिर बनावइ क समझ

१ परमेस्सर यहोवा क सँदेसा नवी हाग्गै क जरिये सालतीएल क पूत यहूदा क सासक यरुब्बाबेल अउर यहोसादाक क पूत महायाजक यहोसू क मिला। इ सँदेसा फारस क राजा दारा क दूसर वरिस क छुठाएँ महीना क पहिले दिन मिला रहा। इ सँदेसा मँ कहा गवा रहा : २ सर्वसक्तीमान यहोवा इ कहत ह, “इ सबइ लोग कहत हीं कि यहोवा क मंदिर क पुनःनिर्माण क समझ नाहीं आवा अहइ।”

३ तबहिं एके बारे भाँ यहोवा इ निम्न लिखित सँदेसा हाग्गै नवी क जरिये स पठाएस ह, जेहमाँ कहा गवा रहा, ४ “का इ तू पचन क खुद सातिर काठे स मढा मकानन मँ रहइ क समझ अहइ जबकि इ मंदिर अबहिं खाली पडा अहइ? ५ इहइ कारण अहइ कि सर्वसक्तीमान यहोवा कहत ह: ‘जउन कछू तोहरे पचन क संग घटत बाटइ ओकेरे बारे भाँ सोचा। ६ तू पचे बोवा बहोत ह, मुला तू पचे काटत्या नाहीं क बराबर। तू पचे खात अहा, मुला तोहार पचन क पेट भरत नाहीं। तू पचे पिअत अहा, पर तू पचन्क नसा होत नाहीं। तू पचे ओढना पहिरत अहा, किन्तु तू पचन्क काफी गरमाहट मिलत नाहीं। तू पचे जउन थोडा बहोत कमात अहा पता नाहीं कहाँ चता जात ह; लागत इ जिसे जेबन मँ छेद होइ ग होइ।”

७ सर्वसक्तीमान यहोवा कहत ह, “जउन कछू तू पचन क संग घटत बाटइ ओकेरे बारे भाँ सोचा। ८ पवते पइ चढा। लकड़ी लिआवा अउर मंदिर बनावा। तब मँ मंदिर स प्रसन्न होवउँ, अउर सम्मानित होवउँ।” यहोवा इ सब कहत ह।

९ सर्वसक्तीमान यहोवा कहत ह, “तू पचे बहोतइ जियादा पावइ क चाह भाँ रहत ह, मुला तू पचन्क नाहीं क बराबर मिलत ह। तू पचे जउन कछू भी घरे पइ लिआवत अहा मँ एका उडाइ लइ जात हउँ। काहेकि मोर मंदिर खडहर पडा अहइ। मुला तू लोगन मँ हर एक क आपन-आपन घरे क पडी बा। १० इहइ कारण बाटइ कि आसमान आपन ओस तक लइ लेत ह, अउर इहइ कारण भुइँया आपन फसल नाहीं देत। अइसा तू पचन क कारण होत ह।”

११ यहोवा कहत ह, “मँ धरती अउ पर्वतन वेरे सूखा पड़इ क हुकुम दिहेउँ ह। अनाज, दाखरस,

जइतून क तेल अउर उ सबइ कछू जेका इ धरती पइदा करत ह, बरबाद होइ जाइ। सबइ लोग अउर सबइ जनावरन क कारज कउनो चीज नाहीं पइदा करइ सकीं।”

नवा मंदिरे क कारज क सुरुआत

१२ तब सालतीएल क पूत जरुब्बाबेल अउ यहोसादाक क पूत महायाजक यहोसू अउर सबइ दूसर लोगन यहोवा आपन परमेस्सर क सँदेसा अउर ओकर पठए भए हाग्गै नवी क बचनन क अंगीकार किहेस। अउर लोग यहोवा स डेराइ गएन।

१३ परमेस्सर यहोवा क सँदेसा वाहक हाग्गै लोगन क यहोवा क सँदेसा दिहस। “उ इ कहेस, मँ इ तोहरे संग हउँ।”

१४ तब परमेस्सर यहोवा सालतीएल क पूत यहूदा क सासक जरुब्बाबेल क प्रेरणा दिहस अउ परमेस्सर यहोवा यहोसादाक क पूत महायाजक यहोसू क भी प्रेरणा दिहस अउ परमेस्सर यहोवा बाकी सबहिं लोगन क प्रेरणा दिहस। तब उ पचे आएन अउ आपन सर्वसक्तीमान परमेस्सर यहोवा क मंदिर क निर्माण मँ काम करइ लागेन। १५ उ पचे इ परसिया क राजा दारा क दूसरे वरिस क छुठाएँ महीना क चौबीसवें दिन किहन।

यहोवा क लोगन क प्रेरणा देब

२१ यहोवा क सँदेसा सताएँ महीना क इक्कीसवे दिना हाग्गै क मिला। सँदेसा मँ कहा गवा, २ “अब यहूदा क सासक सालतीएल क पूत जरुब्बाबेल, यहोसादाक क पूत महायाजक यहोसू स बातन करा अउ जउन लोग बचा अहइ ओनसे कहा : ३ का तू पचन मँ कउनो अइसा बचा अहइ जउन उ मंदिर क आपन पहिले क बैभव मँ देखेस ह। अब तू पचन्क कइसा लागत ह का खण्डहर भवा इ मन्दिर ओ पहिले बैभववाला मंदिर क मुकाबले कहूँ ठहर पावत ह ४ मुला जरुब्बाबेल, “अब तू हिम्मती बना!” अउर यहोसादाक क पूत महायाजक यहोसू, “तू भी हिम्मती बना!” अउर तू सबइ लोग जउन हिआँ रहत ह, हिम्मती बना। यहोवा इ भी कहत ह, “काम करा, काहेकि मँ तोहरे संग अहउँ।” सर्वसक्तीमान यहोवा इ कहत ह।”

५ यहोवा कहत ह, “जहाँ तलक मोरी परतिगया क बान अहइ, जउन मँ तू पचन क मिसर स बाहेर निकारइ क समझ तू पचन स किहेउँ, उ मोर आतिमा तू पचन मँ अहइ। डेराअ जिन।”

६ काहेकि सर्वसक्तीमान यहोवा इ कहत हः ‘एक दाईं फुन मईं हाली ही भुइँया अउ आसमान अउ समुद्र अउ सूखी भुइँया क कँपकेपाइ देबउ ।’^{१८} मईं सबहिं रास्ट्रन क कँपाइ देव, अउर उ सबहिं रास्ट्र आपन सम्पत्तियन क संग तू पचन क लगे अझीं । तब मईं इ मन्दिर क महिमा स भरि देबउ ।’ सर्वसक्तीमान यहोवा इ कहत ह ।
 ८ ‘ओनकर चाँदी मोर अहइ अउर ओनकर सोना मोर अहइ ।’ सर्वसक्तीमान यहोवा इहइ कहत ह ।
 ९ ‘इ मन्दिर क परवर्ती गौरव पहिले मन्दिर क गौरव स बढ़िके होइ ।’ सर्वसक्तीमान यहोवा इ कहत ह । अउर इ ठउर पइ मईं सान्ति क ठहराउब । सर्वसक्तीमान यहोवा इ कहत ह ।’

कारज सुरु होइ चुका अहइ बरदान मिली

१० यहोवा क सँदेसा दारा क दूसर वरिस क नौवें महीना क चउबीसवें दिन नवी हाग्गे क मिला । सँदेसा मैं कहा ग रहा, ११ “सर्वसक्तीमान यहोवा इ कहत ह, अब याजक स पूछा कि इ विसय क बारे मैं व्यवस्था का कहत ह ।”^{१२} होइ सकत ह कउनो मनई आपन ओढ़ना क तहन मैं पवित्र मांस लड़ चलइ । होइ सकत ह कि उ ओढ़ना जउन मैं उ पवित्र मांस लड़ जात रहा होइ, रोटी या पका भोजन, दाखरस, तेल या कउनो दूसर भोजन क छुइ लेइ । का उ चीज जेकर छुअब ओढ़ना स होत ह पवित्र होइ जाइ ?”

याजकन जवाब दिहस, “नाहीं ।”

१३ तब हाग्गे पूछेस, “का होइ अगर कउनो मनई कउनो जउन कि ल्हासे क छुइ क कारण असुद्ध होइ गवा ह, इ चिजियन मैं स कउनो चीज क छुवत ह का इ भी अपवित्र होइ जाव ?”

तब याजकन जवाब दिहस, “हाँ, उ अपवित्र होइ जाइ ।”

१४ तब हाग्गे जवाब दिहस, “परमेस्सर यहोवा कहत ह, ‘मोर नजर मैं, इ ऐन लोगन अउर इ रास्ट्र बरे नेम अहइ । जउन कछू उ करी अउर जउन कछू उ मोका भेंट करहीं उ अपवित्र होइ ।

१५ “अब सोचा आज क पहिले का भवा । यहोवा परमेस्सर क मन्दिर मैं तोहार जरिये एक पाथर पइ दूसर पाथर रखइ स पहिले चिजियन कइसा रहेन ? १६ एक मनई बीस माप अनाज क ढेर क निअरे आवत ह, मुला हुआँ ओका सिरिफ दस ही मिलत ह अउर जब तलक एक मनई दाखरस क पीपा क निअरे पचास माप निकारइ आवत ह तउ हुआँ उ सिरिफ बीस ही पावत ह !”^{१७} मईं, तू पचन क अउर तू पचन क काम क सजा दिहन । मईं तोहार पउधन क नास करइ बेरे जेका तू उगाएस ह बेरामियन क भेजा हउ । मईं फूँदी अउर ओलन क भेजेस जउन कि तोहार सारे पइदावान क तवाह कइ दिहेस । मुला तू पचे फुन भी मोर लगे नाहीं आया । यहोवा इ कहत ह ।

१८ “यहोवा कहत ह, ‘इ दिना स अगवा सोचा अर्थात नौवाँ महीना क चौबीसवें दिन जउने दिन यहोवा, क मन्दिरे क नैव तइयार कीन्ह गइ । सोचा । १९ का बिआ अबहुँ भी भण्डार-गृह मैं बाटइ ? का अंगूरे क बेलन, अंजीर क बृच्छ, अनार अउ जइतन क बृच्छ, अब तलक फल नाहीं दइ पावत अहइ ? नाहीं । मुला आजु क दिन स, अगवा क बेरे मईं तू पचन क आसीवाद देबउ ।’”

२० तब महीन क चौबीसवें दिन हाग्गे क दूसरी दाईं यहोवा क सँदेसा मिला । सँदेसा मैं कहा गवा, २१ “यहूदा क प्रसासक जरुब्बाबेल स कहा, मईं आसमान अउ भुइँया क कँपावइ जात हउ ।”^{२२} अउर मईं राज्जन क राज्जन क सक्ति क बराबाद कइ देबउ अउर मईं रथन अउर ओनके सवारियन क नीचे फेंक देबउ । तब घोड़न अउर ओनके घुड़सवार भहरइहीं । भाई, भाई क दुसमन होइ जाइ ।”^{२३} सर्वसक्तीमान यहोवा कहत ह, “मईं उ दिना सालतीएल क पूत, आपन सेवक, जरुब्बाबेल क लेबउ । यहोवा इ कहत ह अउर मईं तू पचन क मुंदरा स छापी भइ अंगूठी बनाउब । काहिकि मईं तू पचन क चुनेउ ।”

सर्वसक्तीमान यहोवा इ सब कहेस ह ।